

फोन नं.

07420232254

# कार्यालय

नगर परिषद जावद

जिला नीमच म.प्र.

# मैन्युअल

—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005—

वर्ष 2015

## प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित हैं। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिय इकाइयों के किया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी हैं, या जो जनहित में आवश्यक हो।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

नगर परिषद डीकेन मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय हैं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक “लोक प्राधिकारी” हैं। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकर व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई हैं।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

## अध्याय—एक

### संगठक की प्राप्तिया, कृत्य एवं कर्तव्य

नगर परिषद डीकेन जिला नीमच की स्थापना वर्ष 1984 में की गई। वर्तमान में प.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसे अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही हैं।

परिषद के मुख्य कर्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विर्णिदिष्ट हैं। जो निम्नानुसार हैं:-

- (क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना,
- (ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल—नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिये खलु हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हों या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्युसेस का उपशमन करना,
- (ग) विष्ठा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना,
- (ङ.) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपशमन करना,
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हो, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खलु हो, भले ही ऐसे स्थल परिषद, में निहित हो या राज्य सरकार में निहित हो, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना,
- (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना,
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात—स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बंध में निदेश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाए,
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वाश्थकर परिक्षवा का पुररुद्धार करना,
- (ज) सार्वजनिक पथों, पुलियो, नगर पालिका के सीमा—चिन्हां, मण्डिया, हाटो, वधशालाओं, शौचालयों, संडासों, मुत्रालयों, नालियों, मल—नालियों, जल निकास—सकर्मों, मलनाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों, कुओं, बांधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना,

- (ट) काजी हाउसों की स्थापा करना तथा उनका प्रबंध करना और जहां पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना,
- (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना,
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याक्रित करना,
- (ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना,
- (ण) सार्वजनिक, टीके लगाना,
- (त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ो, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीके(लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना,
- (द) ऐसे उपाय करना जो संकामक रोगों के पैदा होने या फैलने या उनकी पुरनावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों,
- (घ) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वाषिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामन्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को ) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें,
- (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों,
- (प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना,

इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती हैं।

**धारा 124(क) से (फ)**

- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुररूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुओ हो या नहीं— नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गों से संस्पर्शी भवन के लिए भू—खण्ड सम्मिलित होंगे,
- (ख) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों, तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना,
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना,
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ड) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिड़कना,
- (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना,
- (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म—मृत्यु संबंधी आंकड़ों का ठीक—ठाक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना,
- (ज) सर्वेक्षण करना,
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्चों या ऐसे किन्हीं भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना,
- (ज) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्ति किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हों,
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना,
- (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद् के नियंत्रणाधीन मल—नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना,
- (ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यों की अभिवृद्धि करना,
- (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना,
- (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना,

- (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक, कार्य में लगी हो या पूर्त प्रकृति संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु भिदाय करना,
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा अनुरक्षण करना और डेरी फार्मों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण—पोषण करना,
- (ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना,
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना,
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना,
- (फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार—गुह, कैफे स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहाँ खाद्य पेय पदार्थ दिए जाते हों,
- (ब) शेडो, छपरों(बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान—गुहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना,
- (म) ऐसी सड़कों तथा ऐसे भवनों का और सिंचन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का, जिन्हें राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद को अंतरित करे, निर्माण करना तथा अनुरक्षण करना,
- (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्यालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गए हों, भरणपोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना,
- (कक) पागलों, कुष्ठ रोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी(एण्टीरेबिक) उपचार होना आवश्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्यालय या मकान में, चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हों या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना,
- (गग) मेले तथा प्रदर्शनीयुक्त मेले लगना,
- (घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (डड) नगर पालिका के भीतर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह उत्सव,, मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस विहित की गई हो,

परन्तु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाए—

- (चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हों,
- (छछ) विकित्सालयों, तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (जज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, और
- (झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी हैं,
- (जज) भूमि अपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण,
- (टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना,
- (ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि,
- (डड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा,
- (ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन,
- (णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना।

लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र — ‘क’ में दर्शाया गया है। विभिन्न विभागों के कार्यों व कर्तव्यों का विवरण प्रपत्र ‘ख’ में तथा पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों को प्रपत्र ‘ग’ में दर्शाया गया हैं।



प्रपत्र-क

## लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा

### नगर परिषद ऊर्केन

प्रेसिडेन्ट इन काउन्सील

अध्यक्ष

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद

अध्यक्ष

परिषद सचिव

लिपिक भृत्य

निम्न श्रेणी  
लिपिक

सामान्य प्रशासन विभाग

सहायक ग्रेड-01 (1)

उच्च श्रेणी लिपिक 01

भृत्य 01

चौकीदार 01

राजस्व विभाग

राजस्व उप  
निरिक्षक 01

भृत्य 01

चौकीदार 01

स्वच्छता विभाग  
एवं लोक स्वास्थ

स्वच्छता पर्यवेक्षक  
01

जन सेवक 09

सामुदायिक  
संगठीका

सामुदायिक  
संगठिका 01

जल प्रदाय  
विभाग

प्लम्बर 01

लाईन मेन 01

## नगर पालिका के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

अ.क्र.	विभाग	कार्य
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी हैं। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं—</p> <p><b>प्रशासन:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था।</li> <li>2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन।</li> <li>3. कार्यालयीन पत्र—व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।</li> <li>4. रिकार्ड— पत्रों का आवक—जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण।</li> <li>5. परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौसिंल परामर्श दात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तों का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित।</li> <li>6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण।</li> <li>7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन।</li> </ol>
		<p><b>लेखा—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निकाय के करों, शुल्को अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदो में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई हैं, की जाँच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना।</li> <li>2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतान की जाँच करना व सुनिश्चित करना कि सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवाहर की सक्षम स्वीकृति हैं। बजट प्रावधान हैं, स्टॉक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टी हैं, व सक्षम अधिकारी</li> </ol>

		<p>की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विर्निदिष्ट अधिकारियों को भेजना।</li> <li>4. वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना।</li> <li>5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतो, अग्रिमों के लेखों का संधारण।</li> <li>6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण।</li> <li>7. जनसहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर में रखना।</li> <li>8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण।</li> <li>9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकण।</li> </ol>
2.	राजस्व विभाग	<p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथा भूमि किराया-प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है, इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश का, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती हैं, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना।</li> <li>2. निकाय द्वारा आरोपित सम्मस्त करों व शुल्कों की शीघ्र वसूली करना।</li> <li>3. करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुको की व्यवस्था</li> </ol>

		<p>उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना।</p> <p>4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांज जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना।</p> <p>5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मुल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना।</p> <p>6. नगर पालिका मार्केट, दूकाने, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही। अधिनियम व नियमो के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना।</p> <p>7. बकाया करों व शुल्कों व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना।</p> <p>8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।</p> <p>9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रकों में करो आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना।</p>
3.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	<p>लेक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालीयों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यों को सम्पन्न करना है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जन-स्वास्थ के लिये वेक्सीनेशन की व्यवस्था।</li> <li>2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का वितरण व चिकित्सीय व्यवस्था।</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. पशुवध गुह, होटलों आदि का निरीक्षण।</li> <li>4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच।</li> <li>5. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालों व नालियों की सफाई।</li> <li>6. सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण।</li> <li>7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन।</li> <li>8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण।</li> <li>9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण।</li> </ol>
4.	लोक निर्माण विभाग	<p>अधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्तव्य हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।</li> <li>2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना।</li> <li>3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सड़को, फुटपाथों व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने</li> <li>4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यों को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना।</li> </ol>
5.	जनकार्य विभाग	<p>प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्तव्य व कार्यों को सम्पन्न करना है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था—इन्टेक्वेल-फिल्टर प्लॉट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण।</li> <li>2. मुख्य व वितरण पाइप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन।</li> <li>3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण।</li> <li>4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टेंकर्स व अन्य सांधनों से</li> </ol>

			<p>सुलभ कराना।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण।</li> <li>6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्त्रोतों, तालाबों, कुओं आदि का संधारण।</li> </ol>
6.	कर्मशाला विभाग		<p>इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनों व पम्पों आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना हैं, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता हैं।</p>
7.	अग्निशामक विभाग		<p><u>काय एवं कर्त्तव्य</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अग्निशामक वाहनों का संधारण।</li> <li>2. आग की स्थिति अग्निशामक की त्वरित व्यवस्था।</li> <li>3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता।</li> </ol>
8.	शिक्षा विभाग		<p>शिक्षा विभाग के कार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाल मंदिरों की स्थापना व संचालन।</li> <li>2. झूलाघरों की स्थापना व संचालन।</li> <li>3. म.प्र. नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा शर्तें) नियम 2005 के प्राधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति।</li> </ol>

**अध्याय—दो**  
**प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियों**

क्र.

प्रपत्र—ग

क्र.	नाम पदाधिकारी	शक्तियॉ	कर्तव्य
1.	नगर परिषद	1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियॉ।	1. अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिदिष्ट कर्तव्य।
		2. आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना।	2. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति।
		3. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति।	3. परामर्श दात्री समिति का निर्वाचन।
		4. करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति	4. धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण।
		5. सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण	5. अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति।
		6. प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति	6. वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति।
		7. सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण	7. ग. नगर पंचायत की दशा में 5 लाख से 50 लाख तक के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।
		8. मण्डी (मार्केट) की स्थापना	8.
		9. आदर्श दुग्ध उद्योग की स्थापना	9.
		10. धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने	10.
		11. परिषद की ओर से विधिक कार्यवाही	11.
		12. परिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति	12.
		13. अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु उपविधियों का निर्माण	
2.	प्रेसीडेंट इन काउंसिल	1. धारा 94 (1)(2)(6) के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड	1. 94 (1), (2) व (6) के अंतर्गत आनेवाले पदों पर नियुक्ति / पदोन्नति।

	2.	500/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रिमियम को स्था/संपत्ति को भाड़े पर की स्वीकृति	2.	धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थाना/संपत्ति का अंतरण।
	3.	वित्तीय शक्तियाँ ग. नगर पंचायत की दशा में रु. 25 हजार से अधिक 5 लाख तक।	3.	वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्यों/खरीदी की स्वीकृति।
	4.	अधिनियम की धारा 93(1) 94(1)(2), 121(1), 126, 160, 168(7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 वे अंतर्गत प्राप्त शक्तियाँ।	4.	कलम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही।
3.	अध्यक्ष	1. परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम, 2. अधिनियम की धारा 183(5), 184, 186, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 218, 219, 268 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ। 3. आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति।	1. 2. 3.	परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन। परिषद की 184, 185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी। कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यों व कार्यवाहीयों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण।
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड 2. सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना 3. कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण	1. 2. 3.	नगर पालिका समस्त कार्यपालिक एवं वित्तीय प्रासन पर निगरानी। नगर पालिका की ओर से पत्राचार। परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत वन नियमो

				अनुसार पालन।
	4.	करों व भाडे की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, वारंट जारी करने की शक्ति	4.	अधिनियम की धारा 180 (1)(2), 185, 187—ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200(2) 204, 208, ,213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 252 एवं 285।
	5.	वित्तीय शक्तियाँ ग. नगर पंचायत की दशा में ₹.25,000 तक के कोई खरीदी की स्वीकृति।		
	6.	अन्य शक्तियाँ जो परिषद /प्रेसिडेन्ट इन काउसलि द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावें।		
	7.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंगत निर्माण कार्यों की स्वीकृति।		

## अध्याय—तीन

विनिश्चय / निर्णय किए जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और [निगरानी / पर्यवेक्षण](#) तथा जवाबदेही के माध्यम / सरणी

### 1. परिषदः—

प्रेषककर्त्ता—मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से।

निर्णयकर्त्ता—परिषद

अपील / परीक्षण—शासन

### 2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल—

प्रेषककर्त्ता—मुख्य नगर पालिका अधिकारी

निर्णयकर्त्ता—प्रेसिडेंट इन काउंसिल

अपील / पुनरीक्षण—परिषद / संचालक

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी	डिलींग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होतो हैं	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	2	3	4	5	6	7
1. परिषद	संबंधित कर्मचारी	संबंधित लिपिक	सी.एम.ओ. / अध्यक्ष, एवं प्रेसिडेंट इन काउंसिल	परिषद / शासन	शासन	मु.न.पा. अधि.
2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल	संबंधित कर्मचारी	संबंधित लिपिक	सी.एम.ओ.	प्रेसिडेंट इन काउंसिल एवं परिषद	परिषद संचालक	मु.न.पा. अधि.

## अध्याय—चार

### प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड / प्रतिमान

**क. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई—**

कार्य/गतिविधि /योजना का नाम	प्रभारी/विहीन अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना हैं उस अधिकारी का नाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
-----------------------------	-----------------------	---------------------	---	-------------------------------

### भवन निर्माण अनुज्ञा एवं कालोनाईजर—

भवन निर्माण मानचित्र की अनुज्ञा का प्रदान करना	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
अनुज्ञा की समयावधि में वृद्धि	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
अनुज्ञा का नवीनीकरण करना	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपयोग में लाने का अनुज्ञा प्रदान करना	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
अवैध निर्माण संबंधि शिकायत का निराकरण	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
अविवादित नामांतरण विवादित	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
जाति प्रमाण पत्र स्थाई मुल निवासी प्रमाण पत्र राशन कार्ड से संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण	रा.उ.नि.	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30 दिन
खाद्य लायसेंस नवीनीकरण व जारी करना	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
राष्ट्रीय परिवार सहायता यो. राष्ट्रीय परिवार सहायता यो. राष्ट्रीय वृद्धापेंशन/सा.सु.पे. जी.पी.एफ. अग्रिम आहरण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
मार्गों का रख रखाव संबंधी चार्टर—	सहा.ग्रेड.02	30 दिवस	मु.न.पा. अधि.	30दिन
मार्गों पर गड्ढो का भरना	न.प.	7 दिवस	मु.न.पा.अधि.	7 दिन

मार्ग के खराब पेंच/भाग की मरम्मत	न.प.	15 दिवस	मु.न.पा.अधि.	15 दिन
सार्वजनिक मार्ग से अवरोध हटाना	न.प.	3 दिवस	मु.न.पा.अधि.	7 दिन
टुटे/मेनहोल को लगाना बदलना	न.प.	3 दिवस	मु.न.पा.अधि.	7 दिन
सार्वजनिक स्थल से भूमि/ भवन स्वामी द्वारा मलवा हटाना	न.प.	48 घंटे में नोटिस जारी करना	मु.न.पा.अधि.	7 दिन
<b>अतिक्रमण मुहिम</b>				
अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही	न.प.	7 दिवस	मु.न.पा.अधि.	7 दिन
पक्के अवैध निर्माणों को हटाना	न.प.	अतिक्रमण हटाओं मुहिम के अंतर्गत	मु.न.पा.अधि.	7 दिन
<b>जल प्रदाय संबंधी</b>				
नल कनेक्शन अ. ओद्योगि प्रयोजन हेतु	न.प.	15 दिवस	मु.न.पा.अधि.	15 दिन
ब. व्यावसायिक प्रयोजन हेतु				
स. घरेलू प्रयोजन हेतु				
आवेदन फार्म की प्राप्ति क्षेत्रिय वार्ड	न.प.	11 से 4बजे	मु.न.पा.अधि.	15 दिन
आवेदन फार्म जमा किया जाना	न.प.	7 दिवस	मु.न.पा.अधि.	15 दिन
आवेदन की पावती	न.प.	उसी समय	मु.न.पा.अधि.	3 दिन
कनेक्शन की स्वीकृति आदेश	न.प.	3 दिवस	मु.न.पा.अधि.	7 दिन
मार्ग काटने की स्वीकृति	न.प.	15 दिवस	मु.न.पा.अधि.	7 दिन

## अध्याय—चार (ख)

प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित [मानदण्ड/प्रतिमान](#) सीटीजन चार्टर

1. करों की वसूली के लिए	समस्त कर	वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत
2. योजना कार्यों के लिए	मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना, सड़क निर्माण सामुदायिक भवन शौचालय, मुत्रालय,	अंकित समय सीमा
3. बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	सांस्कृतिक भवन निर्माण, पेयजल पाईप लाईन विस्तार, आईएचएसडीपी	वित्तीय स्थिति अनुसार

## अध्याय पाँच

नगर परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई नियमों, विनियमों, अनुदेशों मुन्युअल्स और अभिलेख

### अधिनियम

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,
2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,
3. म.प्र. मूलभूत नियम,
4. म.प्र. सिविल सेवा पें न नियम 1971
5. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील( नियम 1966
6. म.प्र. सिविल भविष्य निधि नियम 1955
7. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
8. म.प्र. भूमि विकास नियम
9. कांजी हाउस एकट
10. नगर पालिकाद्वारा बनाई गई उपविधियां।
11. परिपत्र—
  1. म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
  2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश,

## अध्याय छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1	2	3	4	5
1	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	नष्ट की जाती हैं
2	(क) परिषद (ख)स्थायी समिति / प्रेसीडेंट इन कौसिल	रजिस्टर	—“—	—“—
3	वार्षिक प्रतिवेदन	पंजी	प्रतिवेदन	
4	स्टाक तथा भंडार पंजिया	पंजी	क्य की गई <sup>1</sup> सामग्री का विवरण	
5	अचल संपत्ति की पंजी	रजिस्टर	न.पा. की अचल संपत्ति	
6	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	
7	जन्म मृत्यु तथा विवाहों की पंजी	रजिस्टर	जन्म मृत्यु/विवाह संबंधी जानकारी	
8	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	32 वर्ष
9	रोकडिया रोकड़	रोकडिया रोकड	जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छुट्टी / प्रतिनियुक्ति	—“—
11	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	—“—
12	नगर पालिका रोड	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	—“—
13	प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	—“—
14	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	—“—
15	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	—“—
16	अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संबंधी जानकारी	—“—
17	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की	12 वर्ष

			जानकारी	
18	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिमों की जानकारी	—“—
19	प्रतिभूति पंजी	रजिस्टर	प्रतिभूतियों की जानकारी	12 वर्ष
20	ऋण पंजी	रजिस्टर	प्राप्त ऋणों की जानकारी	—“—
21	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुके	रजिस्टर	कर संग्रहण की जानकारी	6 वर्ष
22	समस्त फीस पंजीया	रजिस्टर	लायसेंस फीस	—“—
23	कांजी हाउस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर व पजी	कांजी हाउस की जानकारी	—“—
24	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	—“—
25	चलान, विवध बिल व रसीद बुके व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण	फार्म व बुके	वसूली व जमा की जानकारी	4 वर्ष
26	निर्माण कार्यों के <u>बिल / प्रमाण</u> पत्र माप पुस्तिका	फार्म, बिल बुक	निर्माण कार्यों संबंधी जानकारी	—“—
27	मस्टर रोल	प्रपत्र	मजदूरी भुगतान	4 वर्ष
28	बजट अनुमान	प्रपत्र	बजट	4 वर्ष
29	आवेदन पत्र / पत्राचार	नस्ती	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

## अध्याय सात

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टिया हैं, जिसके अन्तर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदो) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता हैं।

1. नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता हैं।
2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मेयर इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है।

(क) प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का गठन—

1. प्रत्येक परिषद के लिये एक प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।
2. प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी।
3. प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किये जाए और प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि, अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे।
5. अध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थिति रहा हो तो प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
6. इस अधिनियम के अन्तविष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल, अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए।

(ख) कृत्य—

1. नगर परिषद की दशा में 25000 से अधिक किन्तु 5 लाख तक के व्यय की स्वीकृति।
2. अधिनियम की धारा 93(1), 94(1), (2), 121(1), 126, 160, 168, 168(7), 228, 235, 237, 238, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274 एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।
4. अधिनियम की धारा में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने।

#### 4. सदस्य गण—

अ.क्र.	नाम	वार्ड क्रमांक
1	श्रीमती सारिका बाबा बोहरा	अध्यक्ष
2	श्रीमति पुश्पाबाई रमेशचंद्र ग्वाला	वार्ड क्रमांक 02
3	श्री अरविंद धाकड़	वार्ड क्रमांक 11
4	श्री पवन संघवी	वार्ड क्रमांक 04
5	श्रीमती कंकुबाई कमले । पंचोली	वार्ड क्रमांक 05
6	श्रीमति मिनाक्षी विवकुमार त्रिपाठी	वार्ड क्रमांक 15
7	श्रीमती इंद्राबाई लाभचंद्र खटीक	वार्ड क्रमांक 01

5. कर्तव्य एवं दायित्व—उपरोक्त पेरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों व कर्तव्यों का सम्पादन।
6. प्रेसीडेन्ट—इन—काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकार हैं।
3. अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से संबंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती हैं।
4. अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित किसी भी प्रकरण में जॉच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामशदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है।
5. अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामश नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था है।
6. अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत परिषद लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत है।
7. अधिनियम की धारा 325 के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परिषद के लिये बन्धनकारी है।

**अध्याय—आठ**  
**अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है—**

**1. सलाहकार समिति (धारा 71)**

अ.क्र.	नाम समिति	सदस्यों के नाम	योग्यता
1	2	3	4
एक	आवास, पर्यावरण, लोक निर्माण एवं जलकार्य विभाग	सभापति— श्री सदस्य— श्रीमति इंद्रबाई लाभचंद्र खटीक सदस्य— श्री पवन संघवी सदस्य —श्री विनोद झंवर सदस्य — श्री मिनाक्षी फैवकुमार त्रिपाठी	
दो	खाद्य, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग	सभापति— श्री अरविंद धाकड़ सदस्य— श्रीमति कंकुबाई कमले । पंचोली सदस्य— श्री भाकिर हुसेन सदस्य — श्री विनोद झंवर सदस्य — श्री पवन संघवी	
तीन	राजस्व एवं बाजार विभाग	सभापति— श्रीमति मिनाक्षी फैवकुमार त्रिपाठी सदस्य— श्री अरविंद धाकड़ सदस्य— श्रीमति इंद्रबाई लाभचंद्र खटीक सदस्य — श्री भाकिर हुसेन	
चार	शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग	सभापति— श्रीमति पुशपाबाई रमेशचंद्र ग्वाला सदस्य — मिनाक्षी फैवकुमार त्रिपाठी सदस्य— श्री पवन संघवी सदस्य— श्री अरविंद धाकड़ सदस्य — श्रीमति गायत्री भीमराज राठोर	
पाँच	पुनर्वास, नियोजन, विधि, तथा सामान्य प्रशासन विभाग	सभापति— श्री सुभाश पेटर सदस्य— श्रीमति इंद्रबाई लाभचंद्र खटीक सदस्य— श्रीमति मिनाक्षी फैवकुमार त्रिपाठी सदस्य — श्री विनोद झंवर सदस्य — श्रीमति कंकुबाई कमले । पंचोली	

- आवास तथा पर्यावरण और लोक निर्माण समिति, जलकार्य समिति
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग
- राजस्व तथा बाजार समिति
- शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण समिति
- पुनर्वास, नियोजन, विधि, तथा सामान्य प्रशासन विभाग

## कार्य—

1. संबंधित विभाग के कार्यों बाबत सुझाव देना।
2. म.प्र. नगर पालिका(सलाहकार समितियों) के कर्तव्य तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997 में दी गई अनुसूचि में निर्दिष्ट कर्तव्य एवं कर्तव्य नियम की प्रति संलग्न की जावें।
3. कर्तव्यों में समाविष्ट कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना व,
4. ऐसे प्रकरण मेयर इन-कौसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना।

## अध्याय — नौ

### प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

क्रं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	पता	मोबाइल न.
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सारिका बाबा बोहरा	अध्यक्ष	जवाहर मार्ग स्टैं पान रोड जावद	8085220175
2	श्रीमती पुश्पाबाई रमे चंद्र ग्वाला	उपाध्यक्ष	कुम्हारन गली जावद	9425107674
3	श्रीमती इंद्राबाई लाभचंद्र खटीक	पार्षद	रामदेव मार्ग जावद	9993620832
4	श्री राजे T रामनारायण चंदेल	पार्षद	रामदेव मार्ग जावद	9425441168
5	श्री पवन गोपाल संघवी	पार्षद	बैंगनपुरा जावद	9981277928
6	श्रीमती कंकुबाई कमले T पंचोली	पार्षद	रुपारेल जावद	9406869207
7	श्री सुभाशचंद्र मदनलाल पेंटर	पार्षद	रेदास मार्ग जावद	9424544684
8	श्रीमती गायत्री भीमराज राठोर	पार्षद	भीतलामाता मोहल्ला जावद	9893899509
9	श्री भाकिर अख्तर हुसेन	पार्षद	मोमिन मोहल्ला जावद	7489051333
10	श्री	पार्षद	मृत्यु होने से पद रिक्त	
11	श्रीमती केला बाई बं फिलाल बगड़	पार्षद	मुखर्जी मार्ग जावद	9425441474
12	श्री अरविद कुमार फुलचंद्र धाकड़	पार्षद	खारी बावड़ी जावद	9406869102
13	श्रीमती सीमा रामलाल धाकड़	पार्षद	जये वर महादेव गली जावद	9406868705
14	श्री विनोद कुमार बंकटलाल	पार्षद	रविन्द्रनाथ टैगोर गली जावद	9300251050
15	श्री महे T कुमार निर्भयराम बोहरा	पार्षद	कंठाल चोराहा मुखर्जी मार्ग जावद	9424032330
16	श्रीमती मिनाक्षी T वकुमार त्रिपाठी	पार्षद	भगतसिंह गली जावद	9479440271

## अध्याय—दस

**प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका**

पत्रक मासिक पारिश्रमिकों जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों में उप-बंधित क्षतिपूर्ति / मुआवजे प्रतिकर की पद्धति

क्र मांक	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन+महंगाई	विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान
				गृह भाड़ा भत्ता	मेडिकल भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री जगजीवन भार्मा	सीएमओ	36595	501	—	37096	5200+20200
2	श्री अरुण कुमार भार्मा	सहा.ग्रे.2	29105	399	—	29504	5200+20200
3	श्री जे.पी. मालवीय	उपयंत्री	40208	551	—	40759	9300+34800
4	श्री शंकरलाल गायरी	चौकीदार	20874	286	—	21135	4440+7440
5	श्रीमती जरीना बाई	भृत्या	20849	286	—	21135	4440+7440
6	श्री सुनीलकुमार ठाड़ा	चौकीदार	18221	250	—	18471	4440+7440
7	श्री मोहनलाल धाकड़	सरानि	30244	414	—	30658	5200+20200
8	श्री रमेशन्द्र माली	सरानि	29018	398	—	29416	5200+20200
9	श्रीमती संगीता चौधरी	सरानि	28492	390	—	28882	5200+20200
10	श्री राजेन्द्रकुमार	प्लम्बर	26893	368	—	28882	5200+20200
11	श्रीमती सरस्वती वर्मा	स.अ.	41873	574	—	42447	5200+20200
12	श्रीमती अक्षय नागला	स.अ.	32916	451	—	33367	5200+20200
13	श्री बाबूलाल	जनसेवक	23280	319	—	23599	4440+7440
14	श्री चरण सिंह	जनसेवक	23280	319	—	23599	4440+7440
15	श्री दिलीपकुमार	जनसेवक	21484	294	—	21778	4440+7440
16	श्री गुरु अरण	जनसेवक	23280	319	—	23599	4440+7440
17	श्री कैला ।	जनसेवक	21484	294	—	21778	4440+7440
18	श्री राकेशकुमार	जनसेवक	19820	272	—	20092	4440+7440
19	श्री सत्यनारायण	जनसेवक	20477	281	—	20758	4440+7440
20	श्री जाकिर हुसैन	जनसेवक	19820	272	—	20092	4440+7440
21	श्री राजूलाल	जनसेवक	18834	258	—	19092	4440+7440
22	श्रीमती जमीलाबाई	जनसेवक	23280	319	—	23599	4440+7440
23	श्रीमती गीता बाबूलाल	जनसेवक	22667	311	—	22978	4440+7440

24	श्रीमती मीराबाई	जनसेवक	23608	323	—	23931	4440+7440
25	श्रीमती रुक्माबाई	जनसेवक	21834	299	—	22133	4440+7440
26	श्रीमती श्यामाबाई	जनसेवक	21834	299	—	22133	4440+7440
27	श्रीमती मायाबाई	जनसेवक	20170	276	—	20446	4440+7440
28	श्रीमती राजूबाई	जनसेवक	20170	276	—	20446	4440+7440
29	श्रीमती आ बाबाई	जनसेवक	20170	276	—	20446	4440+7440
30	श्री मुके ठकुमार	जनसेवक			—		4440+7440
31	श्री विकास	जनसेवक	14758	205	—	14963	4440+7440
32	श्रीमति विमलाबाई समरथ	जनसेवक	13250	182	—	13432	4440+7440
33	श्रीमति मंजुबाई गोपाल	जनसेवक	13250	182	—	13432	4440+7440

### अध्याय—ग्यारह

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय एवं व्यय पत्रक)

(क)

आय / व्यय

अ.क्र.	शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2014–15	प्रावधान आय / व्यय	वास्तविक आय / व्यय
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मि अंतर्गत निर्माण	शौचालय निर्माण	—	33.394 लाख	32.06 लाख

(ख)

स्वीकृत कार्य एवं योजनाएँ

अ.क्र.	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन	कुल राट	स्वीकृत व्यय
1	2	3	4	5
1	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मि अंतर्गत शौचालय निर्माण	33.394 लाख	25.68 लाख	13.64 लाख

## अध्याय—बारह

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

अ. क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2014–15	प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहि यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाथ ठेला चालक	बीपीएल / एपीएल	न.पं.जावद	2014–15	120000	120000	86
2	पथ पर विक्रय करने वाले कल्याण योजना	बीपीएल	न.पं. जावद	2014–15	40000	40000	2
3	केश प्राप्ति कल्याण योजना	बीपीएल	न.पं. जावद	2014–15	150000	150000	3

## अध्याय—तेरह

प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची

अ. क्र.	सहायता का स्वरूप	प्राप्तकर्ता का नाम	पता	वर्ष	प्रमाण	सहायता राटि ।
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रिय परिवार सहायता	सीताबाई — फि वप्रका । सोनी	वार्ड 6	2014–15	—	20000
2	राष्ट्रिय परिवार सहायता	रुक्मणबाई — दिने । कुमार	वार्ड 10	2014–15	—	20000
3	राष्ट्रिय परिवार सहायता	रामकन्याबाई — पांतीलाल धाकड़	वार्ड 12	2014–15	—	20000
4	राष्ट्रिय परिवार सहायता	रईसाबी — बीर खां	वार्ड 4	2014–15	—	20000
5	राष्ट्रिय परिवार सहायता	कंचनबाई — श्रीलाल तेली	वार्ड 5	2014–15	—	20000
6	राष्ट्रिय परिवार सहायता	योदाबाई — ओमप्रका । वेश्णव	वार्ड 8	2014–15	—	20000
7	राष्ट्रिय परिवार सहायता	भासीमबानो — अब्दुल मजिद	वार्ड 5	2014–15		20000
8	राष्ट्रिय परिवार सहायता	सचिन — ललीता प्रसाद	वार्ड 2	2014–15		20000
9	राष्ट्रिय परिवार सहायता	कोल्याबाई — गार्वधनलाल	वार्ड 7	2014–15		20000
10	राष्ट्रिय परिवार सहायता	भगवान — भवानीराम माली	वार्ड 11	2014–15		20000
11	विवाह सहायता	राधे याम — मांगीलाल	वार्ड 15	2014–15		25000
12	विवाह सहायता	राके । — रामे वरलाल	वार्ड 8	2014–15		25000
13	विवाह सहायता	सीताबाई — फि वप्रका । सोनी	वार्ड 6	2014–15		25000
14	विवाह सहायता	बंगीलाल — भंवरलाल	वार्ड 4	2014–15		25000
15	विवाह सहायता	गुड़ीबाई — तुलसीराम धाकड़	वार्ड 11	2014–15		25000
16	विवाह सहायता	रामप्रका । — बाबुलाल सुथार	वार्ड 1	2014–15		25000
17	विवाह सहायता	देवीलाल — मुलचंद्र	वार्ड 2	2014–15		25000
18	विवाह सहायता	देवीलाल — मुलचंद्र	वार्ड 2	2014–15	—	25000
19	विवाह सहायता	महेश — बंगीलाल जो गी	वार्ड 5	2014–15	—	25000
20	विवाह सहायता	मधुसुदन — श्रीलाल जटिया	वार्ड 2	2014–15	—	25000

21	विवाह सहायता	सुरेश चंद्र —श्रीलाल जटिया	वार्ड 2	2014—15		25000
22	विवाह सहायता	भांतीबाई — छगनलाल	वार्ड 1	2014—15		25000
23	विवाह सहायता	रोन जीमल— अब्दुल करीम	वार्ड 9	2014—15		25000
24	विवाह सहायता	मेरे आरिफ —बी रीझदीन	वार्ड 5	2014—15		25000
25	प्रसुति सहायता	—	वार्ड	2014—15	—	
26	मृत्यु सहायता	—	वार्ड	2014—15	—	
27	अन्त्येष्टि सहायता अनुग्रह राशि	—	वार्ड	2014—15	—	
28	श्रमिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति	—	2014—15	—	
29	इंदिरा गांधी वृद्धा पेंजन	155 हितग्राही	—	2014—15	—	जनपद पंचायत के द्वारा भुगतान
30	इंदिरा गांधी विधवा पेंजन	219 हितग्राही	—	2014—15	—	
31	इंदिरा गांधी निवास पेंशन	33 हितग्राही	—	2014—15	—	
32	सामाजिक सुरक्षा पेंजन	210 हितग्राही	—	2014—15	—	
33	कन्या अभिभावक पेंजन	6 हितग्राही	—	2014—15	—	

नोट:-

इस रिपोर्ट में नगर पालिका द्वारा किसी दुर्घटना, आग—बाढ़, आदि से प्रभावित व्यक्ति को दी गई सहायता, संस्था को दिये गये अनुदान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था आदि की जानकारी दी जाना है।

### अध्याय—चौदह

नगर पालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

अ.क्र.	वर्ग	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	—	निर्माण फार्म नामांतरण फार्म जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र राष्ट्रिय परिवार सहायता	शौचालय फार्म सूचना अधिकार आवेदन गरीबी रेखा आवेदन

## अध्याय— पन्द्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुविधाएँ

अ.क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलिफोन नंबर
1	2	3	4	5
1	सूचना काउंटर	श्री मोहनलाल धाकड़	11 से 04	9424041598

1. पुस्तकालय
2. सूचना केन्द्र
3. सूचना काउंटर
4. अन्य माध्यम—विज्ञापन / पेम्पलेट / नोटिस बोर्ड आदि

## अध्याय—सोलह

### लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

अ. क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नंबर	ई—मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जगजीवन भार्मा	मु.न.पा. अधि.	9424041597	<a href="mailto:cmojavad@mpurban.gov.in">cmojavad@mpurban.gov.in</a>	नगर परिषद जावद	10:30 से 05 तक
2	श्री अरुण कुमार भार्मा	सहा.ग्रेड 02	9407162700	<a href="mailto:cmojavad@mpurban.gov.in">cmojavad@mpurban.gov.in</a>	नगर परिषद जावद	10:30 से 05 तक

नोट:-

लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी दोनों की जानकरी दी जावें।

## अध्याय—सत्रह

### अन्य सूचनाएँ

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेग। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।

अधिकनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

2. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकाय योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्म प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है।
3. नगर पालिका परिषद प्रेसीडेन्ट इन कॉसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
4. नगर पालिका के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें।
5. नगर पालिका ने नागरिकों के कार्यों हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध हैं कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय—सीमा में निराकृत हो सके।
6. अन्य